

# क्या मेरा कृत्रिम जोड़ हवाई अड्डे के सुरक्षा मेटल डिटेक्टरों को सक्रिय कर देगा?



## हाँ, लेकिन यहाँ एक बात जाननी चाहिए:

हवाई अड्डे की सुरक्षा चौकियों पर बेल्ट के बकल, चाबी की जंजीर और स्मार्टफोन संवेदनशील मेटल डिटेक्टरों को सक्रिय कर सकते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई हड्डी से जुड़े प्रत्यारोपण भी मेटल डिटेक्टरों को सक्रिय कर सकते हैं। **कूल्हे और घुटने के पूर्ण आर्थ्रोप्लास्टी के 90% से ज़्यादा प्रत्यारोपित उपकरण हवाई अड्डे के मेटल डिटेक्टरों को सक्रिय कर देंगे।**<sup>1</sup> कई प्रत्यारोपणों में अब धातु के अलावा सिरेमिक और प्लास्टिक शामिल होते हैं और धातु अभी भी मेटल डिटेक्टर में अलार्म का कारण बनेगी।

इस प्रकार के प्रत्यारोपण की पहचान के लिए आपके चिकित्सक से किसी कार्ड या नोट की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपने या परिवार के किसी सदस्य ने धातु प्रत्यारोपण करवाया है, तो स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले परिवहन सुरक्षा प्रशासन (TSA) अधिकारी को सूचित करें कि आपके कूल्हे या घुटने का प्रत्यारोपण हुआ है। अपने पैर पर उस स्थान को इंगित करें जहाँ आपने प्रत्यारोपण करवाया है। यात्री अगर चाहें तो सुरक्षा अधिकारियों के साथ विवेकपूर्ण ढंग से बात-चीत करने के लिए [TSA की अधिसूचना कार्ड](#) का उपयोग कर सकते हैं।

TSA अधिकारी को बताने या यह कार्ड दिखाने से किसी यात्री को स्क्रीनिंग से छूट नहीं मिलेगी। इसके बजाय, आपको बाँडी स्कैन मशीन से गुजरने का निर्देश दिया जाएगा। हाथ से थपथपाए जाने के आवश्यक होने की संभावना को कम करने के लिए बहुत से लोग बाँडी स्कैन (एक्स-रे मशीन) द्वारा जांच कराना पसंद करते हैं। यदि आप बाँडी स्कैन मशीन से गुजरना पसंद नहीं करते हैं, तो हाथ से छू कर जाँच कराने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप बाँडी स्कैन मशीन से गुजरते हैं, तब भी TSA अधिकारी को आपके जोड़ के आसपास की जगह को थपथपाना पड़ सकता है।

जोड़ के प्रत्यारोपण के साथ यात्रा करते समय हम एक अधिक सुखद यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने में सहायता के लिए हवाईअड्डा पर स्क्रीनिंग के लिए अतिरिक्त समय देने की सलाह देते हैं।

### TSA यात्री सहायता

TSA की एक "TSA केयर्स" हॉटलाइन है जिसका उपयोग आप विशेष परिस्थितियों के लिए स्क्रीनिंग के बारे में अधिक जानने के लिए कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए या किसी यात्री सहायता विशेषज्ञ को शेड्यूल करने के लिए जो हवाई अड्डे पर आपकी मदद कर सकता है, उनसे संपर्क करें। फ़ोन (855) 787-2227 या ईमेल [TSA-ContactCenter@tsa.dhs.gov](mailto:TSA-ContactCenter@tsa.dhs.gov).

## और अधिक संसाधन

- AAHKS की ओर से यह दिखाता हुआ वीडियो, जो बताए कि क्या करना है <https://hipknee.aahks.org/airport-security>
- धातु के प्रत्यारोपण पर TSA की जानकारी <http://www.tsa.gov/travel/special-procedures>
- TSA नोटिफिकेशन कार्ड [http://www.tsa.gov/sites/default/files/disability\\_notification\\_cards.pdf](http://www.tsa.gov/sites/default/files/disability_notification_cards.pdf)
- 1. Johnson AJ, Naziri Q, Hooper HA, Mont MA. Detection of total hip prostheses at airport security checkpoints: how has heightened security affected patients? J Bone Joint Surg Am 94(7): e44, 2012



कूल्हे और घुटने के देखभाल पर ज़्यादा लेख और वीडियो से जुड़ने के लिए इसे अपने फ़ोन से स्कैन करें।

यह लेख AAHKS रोगी और जन-संपर्क कमिटी और AAHKS प्रमाण आधारित चिकित्सा कमिटी द्वारा लिखित एवं विशेषज्ञ समीक्षित है। इन पेजों के लिंक या लेखों से उद्धृत सामग्रियों को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हिप एंड नी सर्जन्स का उचित हवाला दिया जाना चाहिए।

संशोधित 2018